

{ SINGLE-WINDOW CLEARANCE }

Nivesh Sarathi biggest aid to investors in U.P, says govt

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

LUCKNOW: The Uttar Pradesh government's single-window clearance system, Nivesh Sarathi, is not only proving to be very helpful but has also emerged as the biggest aid to investors, a government spokesperson said on Monday.

"Apart from giving investors all the information related to investment in the state and encouraging them to invest, MoUs are also being signed on the Nivesh Sarathi portal itself. Through this portal, investors have been able to file investment intent and monitor/supervise the



Through this portal, investors have been able to file investment intent and monitor/supervise the investment and project

GOVERNMENT SPOKESPERSON

investment and project," he said.

On the other hand, another portal Nivesh Mitra is also a big aid to business owners in beginning a new project, he said, adding about 3.50 lakh online NOCs have been given through the portal.

An Online Incentives Moni-

toring System (OIMS) has also been implemented under the Nivesh Mitra portal to simplify the process, he said.

According to government officials, not only easy business opportunities are being made available to investors in Uttar Pradesh, but various exemptions

are also being given to them.

The state government has decided to provide exemptions in all areas, including land lease and stamp duty, depending on the amount of investment, geographical conditions for setting up enterprises, he said.

Elaborating on OIMS, the officials said, "Incentives will be processed, sanctioned and paid through this centralised system."

The portal is also providing online application filing and tracking, besides answering queries related to portfolios of investors. This portal will act as a one-stop solution for investors for all their incentive-related problems, officials said.

यूपी देश का ग्रोथ इंजन, 10 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य

10-12 फरवरी को लखनऊ में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

सीएम योगी ने कहा
यूपी में दुनिया के निवेशकों का स्वागत

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश देश के विकास का इंजन है। सरकार ने राज्य में 10 लाख करोड़ रुपये के विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अगले साल लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) आयोजित होगा। इससे पहले, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में 20 देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें राज्य के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में मंगलवार को एक कार्यक्रम में 'यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023' की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने दुनियाभर के निवेशकों से यूपी की बदली परिस्थितियों का लाभ उठाने का आह्वान किया। विभिन्न देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों, उद्यमियों और निवेशकों की उपस्थिति



लोगो का अनावरण, पोर्टल लॉन्च

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट -2023 के लोगो का भी अनावरण किया। साथ ही निवेशकों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट पोर्टल और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल (निवेश सारथी) का भी शुभारंभ किया। - एजेंसी

राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश प्रगतिशील परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की सोच इस कायाकल्प का प्रमुख स्तंभ है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प में राज्य ने अपने लिए एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है।

में योगी ने बदले यूपी की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि नीतिगत बदलाव के साथ ही ढांचगत सुविधाओं में व्यापक

सुधार किया गया है। हवाई क्षेत्र से लेकर सड़क, जल और रेल नेटवर्क को सुविधाजनक बनाया गया है। देश की

समिट के लिए अब तक 40 देशों से संपर्क

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले साल लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले समिट में निवेशकों के आमंत्रित करने के लिए दुनिया के चालीस देशों से संपर्क किया जा चुका है। 21 देशों ने सहभागिता की सहमति जताई है।

■ नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, ब्रिटेन और मॉरीशस पार्टनर देश के रूप में शामिल होंगे।

■ समिट के प्रचार के लिए सरकार 18 देशों और देश के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो भी आयोजित करेगी।

>> फ्रेट कारिडोर से एक्सप्रेसवे तक में अटवल यूपी : पेज 8

सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में सबसे बड़ा श्रम और उपभोक्ता बाजार है जो औद्योगिक विकास के अनुकूल है।

UP Begins Climb To \$1 Trillion Summit

State at pinnacle of progressive transformational journey: CM

Continued from P 1

UP at present is at the pinnacle of a progressive transformational journey. The vision of a self-reliant India, as envisaged by Prime Minister Narendra Modi, is the main pillar of this rejuvenation. We have set a goal of a USD 1 trillion economy in the coming five years, following the PM's plan to take India's economy to USD 6 trillion," he said.

The GIS, Yogi Adityanath said, would provide a platform to the global industrial world to participate in the state's economic development and in turn, benefit from it. He said that the three-day event will be attended by policymakers, leadership of the corporate world, business delegations, academia, think tanks, and intellec-



Chief Minister Yogi Adityanath at precursor event to the Uttar Pradesh Global Investors Summit (GIS) 2023, on Tuesday

and aerospace, electric vehicles, warehousing and logistics, tourism, textile, MSME etc," he said.

He said that UP is strategically located near Delhi and has the largest population in the country. "With a population of 24 crore, UP has India's largest labour force and consumer market. Infrastructure is being developed at a rapid pace to ensure seamless connectivity through air, water, road and rail, which will further enhance accessibility to global and domestic markets," he said.

Discussing the state's economic aspects, the CM said that UP is among the largest economies in India and contributes about 8% to the national GDP.

The state's new industrial policy, he explained, provides an alternative model which encourages production, employment and exports. "We are also encouraging new sectors, including green hydrogen. Our policies encourage investment for setting up industry specific centres of excellence, research and development and testing facilities in the state. The state government has launched the Atal Industrial Infrastructure Mission and is one of the leading states in implementing the PM Gati Shakti Na-

tional Masterplan," he said. He further said that UP has India's largest youth population for which 72 universities and 100 industrial training institutes are operating across the state. The state also offers opportunities for skill development institutes and exchange programmes.

Among the major developments in the state is the construction of the defence corridor, the CM said. The corridor has six nodes, at Agra, Aligarh, Kanpur, Lucknow, Jhansi and Chitrakoot, of which the Aligarh node has already been inaugurated by the PM and land allotment is in progress in other nodes.

He said that major allocations on the corridor include BrahMos in Lucknow and Bharat Dynamics in Jhansi. The state's first medical device park has been inaugurated near Yamuna Expressway. Similarly, a Film City, Toy Park, Apparel Park, Handicrafts Park and Logistics Hub are being developed in the Yamuna Expressway area. Other projects being developed include IIT GNL at Greater Noida, Mega Food Park at Bareilly, Trans Ganga City at Unnao, Plastic Park at Gorakhpur, Government Park at Gorakhpur and several flat-
ted factory complexes, the said.

UP BEST INVESTMENT DESTINATION: YOGI TELLS WHY

> Home to India's largest railway network (over 16,000 km)

> Both Western & Eastern Dedicated Freight Corridors pass through UP and cross each other in Dadri, Greater Noida

> World class road connectivity with 13 existing and upcoming expressway projects covering the length and breadth of UP

> Five international airports - Lucknow, Varanasi & Kushinagar are functional while those in Jewar and Ayodhya to be operational soon.

> Jewar airport will be largest in India and 15 airports for regional connectivity taking shape

> India's first, Varanasi-Haldia inland waterway, under development

> Logistics infra includes Moradabad rail-linked joint domestic & EXIM terminal, rail-linked private freight terminal & inland container depot (ICD) at Kanpur and Dadri



CM during the curtain raiser event for Global Investors Summit

> India's first 'freight village' is being developed on 100 acres in Varanasi to act as trans-shipment hub for inbound and outbound cargo, connecting export centres of east UP with ports in east India

> Known as 'food basket of India', UP has unlimited potential for agriculture, food processing & dairy sectors.

> UP is home to two major textile centres of India, Bhadohi & Varanasi. UP also 3rd largest fabric producer in India

> Birth place of Ram, Krishna, Buddha and Jain tirthankars, UP offers opportunities in spiritual & cultural tourism

> About 45% of India's mobile manufacturing takes place in UP, 55% of India's mobile components manufacturers are located here. Over 200 ESDM

companies based in UP

> UP is developing clusters for semiconductor manufacturing and fab-units

> Fastest growing data center hub in India

> Classified in the category of 'Leader States' by the Government of India under Startup India Ranking (2021)

> Over 7,600 startups have been registered under 'Startup India' in UP

> Capitalists, incubation centers like IIT-K, IIM-L provide opportunities to developers

> UP offers opportunities to angel investors and venture capitalists to promote startups in the defence and aerospace value chain, leading to technology transfer. R&D and innovation is encouraged



tuals. They will, he said, collectively brainstorm on business possibilities in UP and opportunities for partnership with the state.

Explaining why UP had transformed into an investment friendly hub, the CM said that the state government was offering policy assistance and high-class infrastructure, along with improved law and order. "For proactive investor connect and handholding, our government has developed a new online system called 'Nivesh Sarathi' for signing memorandums of understanding and monitoring their implementation. In addition to this, the government has launched around 25 policies across sectors, including IT/ITES, data centre, defence